



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 525] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 1976/अग्राहायण 19, 1898

No. 525] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1976/AGRAHAYANA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF COMMERCE

### ORDER

New Delhi, the 8th December 1976

S.O. 780(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea units known as Monteviot and Edenvale Tea Estates situated in the district of Darjeeling managed by Smt. Rama Sundari Devi, Administrator to Tea Estates of Shri N. C. Goenka, Monteviot Road, Kurseong, Darjeeling, that,—

- the average yield of the tea unit during the years 1973, 1974 and 1975 out of five years, namely, 1971 to 1975 has been lower than the district average yield by twenty-five per cent.;
- the persons owning the tea unit have habitually made default in the payment of provident fund dues of workers and other employees, rent of the land and other dues as they are under an obligation to pay under certain laws for the time being in force; and
- the tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of:

- Shri S. S. Nandkeolyar, Director of Tea Development, Tea Board.
- Shri P. K. Das Gupta, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board.
- Shri C. R. Gautam, Deputy Secretary, Department of Commerce and Industries, Government of West Bengal, Calcutta.

(4) Shri A. K. Roychowdhury, Deputy Adviser (Finance), Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhavan, New Delhi.

2. The said body shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. B.12012(9)/76-Plant(A)]

V. C. PANDE, Jt. Secy.

### वाणिज्य मंत्रालय

#### आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1976

का० घा० 780(अ).—केन्द्रीय सरकार की, श्रीमती रमा सुन्दरी देवी, प्रशासक, श्री एन० सी० गोकुलका टी एस्टेट मॉटेरियल रोड कुसियांग दार्जिलिंग के प्रबन्धाधीन, दार्जिलिंग जिले में स्थित मॉटेरियल और इडेनवेल टी एस्टेट नामक चाय एकक की बाबत यह राय है कि—

- (क) पांच वर्ष अर्थात् 1971 से 1975 के दौरान 1973, 1974 और 1975 में इस चाय एकक की औसत उपज जिले की औसत उपज से पच्चीस प्रतिशत कम रही है;
- (ख) चाय एकक के स्वामियों ने कर्मचारों तथा अन्य कर्मचारियों के भविष्य निधि देयों तथा भूमि का किराया और ऐसे अन्य देयों का, जिसका संदाय करने के लिए वे तत्समय प्रवृत्त कतिपय विधियों के अधीन बाध्य हैं संदाय करने में धारम्भार व्यतिक्रम किया है; और
- (ग) चाय एकक का प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जा रहा है जो चाय उद्योग तथा लोकहित के लिए बहुत अहितकर है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय एकक के मामलों का पूर्ण और व्यापक अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- (1) श्री एस० एस० नन्दकुलियार, निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड, कलकत्ता ।
- (2) श्री पी० के० दास गुप्त, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड, कलकत्ता ।
- (3) श्री सी० आर० गौतम, उपसचिव वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
- (4) श्री ए० के० राय चौधरी, उप सलाहकार (वित्त) लोक उद्यम ब्यूरो, मयूर भवन, नई दिल्ली ।

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[सं० बी० 12012(9)/76-प्लान्ट (ए)]

वी० सी० पाण्डे, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा

नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976